



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 फाल्गुन 1946 (श0)
(सं0 पटना 163) पटना, मंगलवार, 4 मार्च 2025

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)

अधिसूचना
28 फरवरी 2025

सं0 IV/M1-1-4/2025-942—भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा-9 की उप-धारा (i) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल 45वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल, वीरपुर, सुपौल में केन्द्रीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु 05 एकड़ भूमि 99 वर्षों के लिए एवं केन्द्रीय विद्यालय, ए0एफ0एस0, पूर्णियाँ के भवन निर्माण हेतु 12.91 एकड़ भूमि 99 वर्षों के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन को लीज पर अंतरित किये जाने संबंधी दस्तावेज के निबंधन पर प्रभार्य मुद्रांक शुल्क का शत-प्रतिशत छूट प्रदान करते हैं।

2. भविष्य में नये केन्द्रीय विद्यालयों के निर्माण संबंधी प्रस्ताव शिक्षा विभाग की सहमति एवं समाहर्ता की अनुशंसा के साथ प्राप्त होने पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर मुद्रांक शुल्क में शत-प्रतिशत छूट की सहमति विभाग (मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग) द्वारा प्रदान की जायगी।

3. यह तुरन्त के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद सिंह गुंजियाल,
सरकार के सचिव।

28 फरवरी 2025

सं0 IV/M1-1-4/2025-942 दिनांक 28 फरवरी 2025 उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद सिंह गुंजियाल,
सरकार के सचिव।

The 28th February 2025

No. IV/M1-1-4/2025-942—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (i) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899, the Governor of Bihar is pleased to exempt fully the stamp duty chargeable on registration of document related to transfer of 05 acres of land on lease to kendriya vidyalaya Sangathan for 99 years for construction of Kendriya Vidyalaya building at 45th Battalion Sashastra Seema Bal, Veerpur, Supaul and 12.91 acres of land for 99 years for construction of Kendriya Vidyalaya, AFS, Purnia.

2. Department of Prohibition, Excise & Registration has been empowered by the government to provide 100% exemption on stamp duty for construction of new kendriya vidyalay on receipt of proposals with prior consent of the Education Department and on the recommendation of the Collector, after obtaining the consent of the Finance Department.

3. It shall come into force with immediate effect.

**By the Order of the Governor of Bihar,
Vinod Singh Gunjiyal,
Secretary to the Government.**

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 163-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>